



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 11, 2004—दिसम्बर 17, 2004 (अग्रहायण 20, 1926)  
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DEC. 11, 2004—DEC. 17, 2004 (AGRAHAYANA 20, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## PART I—SECTION 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से  
सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry  
of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(सेना शाखा)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 दिसम्बर 2004

सं. 609, दिनांक 17 नवम्बर, 2004.--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की  
सहर्ष नियुक्ति करते हैं :

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जेण्टलमैन कैडेट्स जो कि 95 टी जी सी पाठ्यक्रम और  
11 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख  
अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के  
अन्तर्गत टी जी सी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93 परिशोधित  
संख्या सेना अनुदेश 12/96 यू ई एस पाठ्यक्रम वालों को पूर्व आयोग  
प्रशिक्षण अवधि के लिये, जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में

प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया  
जाता है :--

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/ सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
टी/5999	सुनील कुमार	40155एक्स	सिग्नल्स	12 जुलाई 2002
टी/6001	मनीष	40156ए	ई एम ई	12 जुलाई 2002
टी/6020	अनूप वी फिल्लई	40172एक्स	सिग्नल्स	21 जुलाई 2002
टी/6021	आर समीर	40173ए	सिग्नल्स	22 जुलाई 2002
यू/393	अंशुमान चक्रवर्ती	40180डब्ल्यू	सिग्नल्स	12 जुलाई 2002
यू/399	मयंक सोनी	40186एक्स	सिग्नल्स	12 जुलाई 2002
टी/402	सी सेन्थिलकुमारन	40189एल	सिग्नल्स	12 जुलाई 2002
यू/405	उमा शंकर	40192एल	ई एम ई	12 जुलाई 2002
यू/427	कंवरजीत सिंह	40214वाई	सिग्नल्स	12 जुलाई 2002

निम्नलिखित जी सी जो कि 96 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94 के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत पूर्व आयोग प्रशिक्षण अवधि जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :—

आई एम ए संख्या	नाम	एस एस संख्या	आर्म्स/सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
1	2	3	4	5
टी/6027	कुदले अमीत श्रीकांत	40477एक्स	ई एम ई	17 जनवरी 2003
टी/6029	विजय धनखड़	40479एच	ई एम ई	17 जनवरी 2003
टी/6030	सौरभ मोदी	40480एक्स	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6032	राघवेन्द्र अग्रवाल	40482एच	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6033	हरिन्दर सिंह सुहाग	40483एल	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6036	संजय कुमार पाण्डेय	40485डब्ल्यू	ई एम ई	17 जनवरी 2003
टी/6037	विकास सिंह राणा	40486वाई	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6038	प्रदीप आर वी	40487एफ	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6040	बसव राज	40489एम	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6041	देवेन दत्ता	40490एफ	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6042	के वी वी पी एस निरवान	40491के	ई एम ई	17 जनवरी 2003
टी/6043	अजय कुमार	40492एम	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6044	सुरेश नारायण त्रिपाठी	40493पी	ई एम ई	17 जनवरी 2003
टी/6045	सिद्धार्थ आचार्य	40494एक्स	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6046	आशीष श्योराण	40495ए	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6048	हरीश कुमार सपोलिया	40497एल	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6049	जसदीप सिंह	40498एन	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6050	अनुराग शर्मा	40499डब्ल्यू	सिग्नल्स	17 जनवरी 2003
टी/6053	सुनील गहलौत	40501एच	ई एम ई	17 जनवरी 2003
टी/6054	रवि किरन तोमर	40502एल	ई एम ई	17 जनवरी 2003
टी/35540	दलिपति श्रीकान्त	40503डब्ल्यू	सिग्नल्स	01 अप्रैल 2003

1	2	3	4	5
टी/35589	चिन्तालुरी हनुमन्त राव	40505वाई	इंजिनियर्स	16 फरवरी 2003
टी/35663	अभिषेक कुमार श्रीवास्तव	40506एफ	सिग्नल्स	01 अप्रैल 2003
टी/35670	अभिषेक कुमार	40507के	सिग्नल्स	01 अप्रैल 2003
				अरविन्द कुमार मेजर डी ए एम एस 8 बी

### थल सेना विभाग

सं. 610, दिनांक 10 नवम्बर, 2004.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

### निम्नलिखित हैं

### इन्फैंट्री

मैकानाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जवाहर लाल गुजर (जेसी-217991वाई), 01 जून 2004

सूबेदार चव्हाण बाबू महादेव (जेसी-216374के), 01 जुलाई 2004

सूबेदार मीन प्रकाश (जेसी-418181एम), 01 जुलाई 2004

सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-216378ए), 01 अगस्त 2004

सूबेदार सुच्चा सिंह (जेसी-226946एन), 06 अगस्त 2004\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार किशोर कुमार सिंह (जेसी-419037के), 01 जनवरी 2004

नायब सूबेदार केहर सिंह (जेसी-419103एफ), 25 जुलाई 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मनमोहन सिंह (जेसी-419146डब्ल्यू), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-419164वाई), 01 फरवरी 2004

नायब सूबेदार कलैहर सिंह (जेसी-419182एफ), 26 मई 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-419523एफ), 04 मई 2004\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दामोदर राणा (जेसी-419647डब्ल्यू), 01 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अनाद सिंह (जेसी-418962ए), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-418993ए), 01 मार्च 2004

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-418984वाई), 03 मई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्री क्रिशन (जेसी-419043एक्स), 17 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रोहित कुमार गुर्ला (जेसी-418715एम), 03 मई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम वृक्ष सिंह (जेसी-418943पी), 01 मई 2004

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-419407वाई), 01 मई 2004

नायब सूबेदार नरेन्द्र मलानी (जेसी-418804एल), 23 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विजयेन्द्र सिंह (जेसी-418804डब्ल्यू), 30 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार यनकपा लामनी (जेसी-418913एक्स), 23 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बख्तावर सिंह (जेसी-418925एम), 30 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह (जेसी-418939एम), 07 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्यापाल (जेसी-419075ए), 30 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिनेश सिंह रावत (जेसी-419134एफ), 20 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सिधे सिंह (जेसी-419167एम), 20 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेश चन्द (जेसी-419471डब्ल्यू), 20 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गिरधारी सिंह (जेसी-419066वाई), 03 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरलाल सिंह डागी (जेसी-419094एल), 30 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शुभ राम (जेसी-419127एल), 30 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-419162एन), 30 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बरेन्द्र नाथ हसदा (जेसी-419221पी), 20 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरज भान (जेसी-419069एम), 01 अगस्त 2004 \*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-419085के) 03 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) जसवन्त सिंह साकलानी (जेसी-418798एच), 21 सितम्बर 2002 \*

\*(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2002 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) रमेश चन्द राणा (जेसी-418812के), 01 अक्टूबर 2002

## सूबेदार (आरटी पंडित) के रैंक में

नायब सूबेदार (आरटी) श्री उमा शंकर तिवारी (जेसी-418008एच),  
19 नवम्बर 2002 \*

\*(सूबेदार (आरटी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2002 से दी जायेगी)

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 14903723एम अब जेसी-420001एक्स),  
01 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार लखबिन्दर सिंह (सं. 14908617एक्स अब जेसी-420002ए),  
12 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 14901851एल अब जेसी-420003एच),  
06 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अमलेन्दु बसक (सं. 14903221के अब जेसी-420004एल),  
24 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

हवलदार विश राम (सं. 14906515एच अब जेसी-420005एन),  
26 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 22 मार्च 2004 से दी जायेगी)

हवलदार विजय कुमार (सं. 14906385एल अब जेसी-420006  
डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 27 मार्च 2004 से दी जायेगी)

हवलदार नर बहादुर गुरूंग (सं. 14906951ए अब जेसी-420007वाई),  
15 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार रविन्द्रा सिंह (सं. 14902891वाई अब जेसी-420008एफ),  
24 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कपूर सिंह (सं. 14906420एच अब जेसी-420009के),  
28 अप्रैल 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार गोडसे तुलसीराम आनदा (सं. 14903059एक्स अब  
जेसी-420010वाई), 15 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाश सिंह गुरूंग (सं. 14904467पी अब  
जेसी-420011एफ), 17 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

हवलदार अमर सिंह (सं. 14901746पी अब जेसी-420012के),  
05 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सोमराज (सं. 14906460के अब जेसी-420013एम),  
08 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार सत गुरू (सं. 14905608एल अब जेसी-420014पी),  
15 मई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार दिनेश कुमार शर्मा (सं. 14908349वाई अब  
जेसी-420015एक्स), 16 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जायेगी)

हवलदार गिरिवर सिंह (सं. 14901507ए अब जेसी-420016ए),  
01 जून 2004

हवलदार धन सिंह (सं. 14901596के अब जेसी-420017एच),  
01 जून 2004

हवलदार सुरेंद्रा कुमार (सं. 14901822डब्ल्यू अब जेसी-420018एल),  
01 जून 2004

हवलदार जगदिश प्रसाद (सं. 14901893एक्स अब जेसी-420019एन),  
12 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

हवलदार घनश्याम शर्मा (सं. 14905688एन अब जेसी-420020एच),  
04 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) शिवकरन सिंह (सं. 2980932ए अब  
जेसी-420027एम), 01 जुलाई 2004

हवलदार (लिपिक) करनैल सिंह (सं. 14910485एन अब  
जेसी-420028पी), 01 अगस्त 2004

## नायब सूबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में

चंद्र प्रकाश लखेड़ा (जेसी-419935एच), 17 जुलाई 2004

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (सं. 14913222ए अब जेसी 420021एल),  
10 जुलाई 2004 \*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)हवलदार सतबीर (सं. 14913475पी अब जेसी 420022एन),  
19 जुलाई 2004 \*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)हवलदार हरभेज सिंह (सं. 14913394पी अब जेसी 420023डब्ल्यू),  
10 जुलाई 2004 \*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)हवलदार सतेन्द्र सिंह (सं. 2982795एल अब जेसी 420024वाई),  
24 जून 2004 \*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)हवलदार रमेश सिंह तोमर (सं. 2978781एन अब जेसी 420025एफ),  
24 जून 2004 \*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)हवलदार शिव प्रकाश सिंह (सं. 2983038एच अब जेसी 420026के),  
01 जुलाई 2004

## गार्ड्स ब्रिगेड

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार यशपाल (जेसी-205436वाई), 06 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार शिवा शंकरन सी (जेसी-208257के), 19 जून 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार ज्ञानिन्दर प्रसाद (जेसी-402128एक्स), 01 जुलाई 2004

सूबेदार क्रिशना कुमार झा (जेसी-402250एन), 01 अगस्त 2004

सूबेदार मेहताब सिंह (जेसी-188603एल), 10 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार एन नल्लैयन (जेसी-217924एन), 12 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जायेगी)

सूबेदार जय करण सिंह (जेसी-192336एम), 01 अगस्त 2004

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लाला राम (जेसी-402496एम), 02 अप्रैल 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 फरवरी 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ब्रिजेन्द्रा सिंह (जेसी-402740एफ), 18 मई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मार्च 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सैमसन ए (जेसी-402710के), 16 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
11 अप्रैल 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वेद सिंह पुनिया (जेसी-402580एम), 06 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 मई 2004 से दी जायेगी)नायब सूबेदार विष्णु कांत उपाध्याय (जेसी-402738के), 04 अगस्त  
2004 \*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
06 मई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिव कुमार यादव (जेसी-402759ए), 03 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 मई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार धान सिंह (जेसी-402776ए), 13 मई 2004

नायब सूबेदार ओम दत्त (जेसी-402828एल), 07 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
13 मई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिशुपाल सिंह (जेसी-402956एच), 22 मई 2004

नायब सूबेदार राम बरन सिंह (जेसी-403065एम), 22 मई 2004

नायब सूबेदार जतेंद्र पाल सिंह (जेसी-402920के), 23 मई 2004

नायब सूबेदार प्रसाद एम (जेसी-402905एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार शिवाजी बी यू (जेसी-402971एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार बदलय राम इंदोलिया (जेसी-402625एफ), 01 जुलाई  
2004 \*\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता  
01 जून से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दिनेश चंद्र (जेसी-402940एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार राजेंद्रा प्रसाद राय (जेसी-403087एल), 13 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उदयवीर सिंह पाल (जेसी-403127एफ), 01 जून 2004

नायब सूबेदार कप्तान सिंह (जेसी-402655वाई), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-402753वाई), 15 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राम निवास हुड्डा (जेसी-402774पी), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार करतार सिंह (जेसी-402775एक्स), 15 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोहिंदर सिंह (जेसी-402842एक्स), 12 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सतबीर सिंह (जेसी-402851वाई), 12 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरी सिंह दुदी (जेसी-402861एच), 12 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विनेश्वर शर्मा (जेसी-402778एल), 11 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रामानन्द राय (जेसी-402884के), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार राम प्रकाश शक्या (जेसी-403066पी), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार प्रहलाद (जेसी-403129एम), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार गोपाल सिंह (जेसी-402737एफ), 17 फरवरी 2004 \*

नायब सूबेदार बनबीर सिंह रावत (जेसी-402808एक्स), 12 अप्रैल 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 फरवरी 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सरमन सिंह यादव (जेसी-402814एल), 15 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जेसी-402989एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार वरवीस सी (जेसी-402995एफ), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार रामे निवास (जेसी-403009एन), 31 जुलाई 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार चंद्र हस (जेसी-402829एन), 28 जून 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सूरज भान सिंह (जेसी-402830एच), 02 मई 2004

नायब सूबेदार दिनेश चंद्र (जेसी-402940एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार समशेर सिंह (जेसी-402629एक्स), 01 जून 2004

नायब सूबेदार मिर्तार सिंह (जेसी-402630एम), 01 जून 2004

नायब सूबेदार सुरेश एच सी (जेसी-403083पी), 01 जून 2004

नायब सूबेदार राम प्रसाद (जेसी-402660के), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार गजे सिंह (जेसी-402892एच), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार दिनेश्वर सिंह (जेसी-402893एल), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार हेम राज सिंह (जेसी-403020एम), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-403054ए), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार सूरज भान जंघू (जेसी-403069एच), 18 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार नवीन्द्रा सिंह (जेसी-402882वाई), 07 सितम्बर 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार मंगल दास (जेसी-402883एफ), 09 अगस्त 2004 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार बलदेव राज (जेसी-402691के), 10 अगस्त 2004

नायब सूबेदार राम भुवन तिवारी (जेसी-402885एम), 19 अगस्त 2004

नायब सूबेदार जय सिंह (जेसी-402888ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार उपदीप्त कुमार मिश्रा (जेसी-402945डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार जय प्रकाश (जेसी-402706एफ), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार रण सिंह (जेसी-403070एक्स), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार राम बिरान (जेसी-403141एन), 01 सितम्बर 2004

**सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में**

नायब सूबेदार (क्लर्क) एम डी खुदा बक्श सेख (जेसी-402917के), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) सतेन्द्र दत्त (जेसी-402924ए), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) रघुवीर सिंह रावत (जेसी-402923एक्स), 01 सितम्बर 2004

**नायब सूबेदार के रैंक में**

हवलदार वी रमिया (सं. 13685247एन अब जेसी-403547एफ), 17 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 13685928डब्ल्यू अब जेसी-403548के), 30 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार राम सम्पत (सं. 13681455एल अब जेसी-403549एम), 18 जून 2004 \*

हवलदार चंद्रा शेखर प्रसाद यादव (सं. 13686399एफ अब जेसी-403550एफ), 30 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/आप्रेटर सुभाष चंद्र दयेना (सं. 13687152एम अब जेसी-403551के), 04 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/गनर जग जीवन राम (सं. 13684270पी अब जेसी-403552एम), 12 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार विजय बहादुर (सं. 13685449पी अब जेसी-403553पी), 23 मई 2004 \*

हवलदार हैदर बैग (सं. 13687795के अब जेसी-403554एक्स), 11 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार थवमनी (सं. 13688525एफ अब जेसी-403555ए), 01 जून 2004

हवलदार/ड्राईवर एम प्रिनिवास राव (सं. 13689061एफ अब जेसी-403556एच), 01 जून 2004

हवलदार संकर सोरेन (सं. 13685314एन अब जेसी-403557एल), 01 जून 2004

हवलदार राम खिलाडी (सं. 13685797डब्ल्यू अब जेसी-403558एन), 01 जून 2004

हवलदार/ड्राईवर उमेश कुमार (सं. 13685644एम अब जेसी-403559डब्ल्यू), 01 जून 2004

हवलदार/ड्राईवर मोहन ठाकुर (सं. 13685699डब्ल्यू अब जेसी-403560एल), 01 जून 2004

हवलदार/गनर पत राम यादव (सं. 13684868ए अब जेसी-403561एन), 17 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/ड्राईवर राजवीर सिंह (सं. 13685541एन अब जेसी-403562डब्ल्यू), 17 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/ड्राईवर करन सिंह (सं. 13685636एन अब जेसी-403563वाई), 17 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/ड्राईवर राजेश कुमार (सं. 13686503के अब जेसी-403564एफ), 12 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/आप्रेटर ताज मुहम्मद (सं. 13686402डब्ल्यू अब जेसी-403565के), 12 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/ड्राईवर नरपत सिंह (सं. 13687332पी अब जेसी-403566एम), 12 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार नसीब सिंह (सं. 13681310ए अब जेसी-403567पी), 07 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सुलतान सिंह (सं. 13683659डब्ल्यू अब जेसी-403568एक्स), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार/क्लर्क राज देव राय (सं. 13686523एक्स अब जेसी-403569ए), 07 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क सुशील कुमार मंडल (सं. 13686526एल अब जेसी-403570पी), 30 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाएगी)

हवलदार/क्लर्क बलबीर सिंह (सं. 13685131एक्स अब जेसी-403571एक्स), 01 अगस्त 2004

हवलदार/क्लर्क कृष्ण कुमार (सं. 13686539एच अब जेसी-403572ए), 01 अगस्त 2004

हवलदार/क्लर्क महेन्द्रा सिंह राणा (सं. 13686541ए अब जेसी-403573एच), 01 अगस्त 2004

हवलदार/क्लर्क प्रीतम सिंह (सं. 13686548के अब जेसी-403574एल), 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में

रंगरूट (आर टी) चेतन्य प्रकाश शर्मा (सं. 403429 अब जेसी-403429एन), 20 मार्च 2004

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रेम पाल सिंह (सं. 13682972पी अब जेसी-403575एन), 04 सितम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाएगी)

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 13683674एल अब जेसी-403576डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

हवलदार लक्ष्मी कांत (सं. 13687311वाई अब जेसी-403577वाई), 01 जून 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाएगी)

हवलदार लखविन्दर सिंह (सं. 13681611ए अब जेसी-403578एफ), 01 जुलाई 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13685115ए अब जेसी-403579के), 02 मई 2004

हवलदार रसा बिहारी मोहन्ती (सं. 13685229एल अब जेसी-403580वाई), 02 मई 2004

हवलदार घिसा राम सैनी (सं. 13686862एक्स अब जेसी-403581एफ), 18 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार (ड्राईवर) राज सिंह (सं. 13685093एम अब जेसी-403582के), 28 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार जग राम (सं. 13681706के अब जेसी-403583एम), 01 जून 2004

हवलदार कल्याण राम (सं. 13685055डब्ल्यू अब जेसी-403584पी), 01 जून 2004

हवलदार प्रमोद कुमार (सं. 13687180वाई अब जेसी-403585एक्स), 27 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेश चंद्रा (सं. 13687473के अब जेसी-403586ए), 27 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार उमा शंकर सिंह (सं. 13687263के अब जेसी-403587एच), 27 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाएगी)

हवलदार लल्ला प्रसाद (सं. 13684474एफ अब जेसी-403588एल), 20 अगस्त 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2004 से दी जाएगी)



हवलदार (ऑफ़िसर) रामेश्वर दयाल (सं. 13684466एच अब जेसी-403589एन), 01 अगस्त 2004

हवलदार ब्रजेश बाबू चतुर्वेदी (सं. 13687452एन अब जेसी-403590एच), 01 अगस्त 2004

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 13683661एन अब जेसी-403591एल), 16 सितम्बर 2004\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) रोशाल लाल (सं. 13686521एम अब जेसी-403592एन), 29 अगस्त 2004\*

\*(नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाएगी)

कवचित कोर

स्थाई रिसालदार मेजर के रैंक में

रिसालदार खुचा सिंह (जेसी-235791एल), 05 जून 2002\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

रिसालदार गुला राम (जेसी-237014एफ), 01 जुलाई 2002

रिसालदार रत्न लाल यादव (जेसी-235808के), 01 दिसम्बर 2003

रिसालदार महाबीर सिंह (जेसी-237747ए), 01 जनवरी 2004

रिसालदार नाग लाल (जेसी-236809एच), 26 जनवरी 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

रिसालदार महिपाल सिंह (जेसी-237411ए), 01 जनवरी 2004

रिसालदार प्रभु नीलम (जेसी-237672एन), 09 मार्च 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

रिसालदार श्री रमेश (जेसी-237313ए), 03 मार्च 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

रिसालदार ए उदया कुमार (जेसी-237993एल), 01 अप्रैल 2004

रिसालदार प्रभु नाथ ओझा (जेसी-238255एन), 01 अप्रैल 2004

रिसालदार सुरजीत कुमार (जेसी-237120ए), 21 अप्रैल 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

रिसालदार रामा नन्द (जेसी-204536एक्स), 01 अप्रैल 2004

रिसालदार उमा शंकर सिंह (जेसी-206536डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

रिसालदार गुरदीप सिंह (जेसी-238174एन), 22 अप्रैल 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

रिसालदार गुरदीप सिंह (जेसी-236285एम), 01 मई 2004

रिसालदार दशरथ सिंह (जेसी-237813एक्स), 01 मई 2004

रिसालदार जय किशन (जेसी-236613पी), 02 जुलाई 2004\*

\*(रिसालदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार कान सिंह उदासत (सं. 1069572एच अब जेसी-240646एक्स), 01 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2004 से दी जाती है)

दफादार राम बिनोद मिश्रा (सं. 1068728एच अब जेसी-240671डब्ल्यू), 03 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

दफादार विजय पाल (सं. 1074360एफ अब जेसी-240691के), 22 अप्रैल 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

दफादार अजय (सं. 1071257एल अब जेसी-240701एच), 20 मई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

दफादार नीला कान्थ मिरगी (सं. 1070872डब्ल्यू अब जेसी-240702एल), 07 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1071592पी अब जेसी-240703एन), 05 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मार्च 2004 से दी जाती है)

दफादार राजपाल सिंह (सं. 1071398ए अब जेसी-240708एम), 12 मई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार विरेन्द्र सिंह (सं. 1072514के अब जेसी-240714ए),  
28 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2003 से दी जाती है)

दफादार पिसाल हनमन्त लक्ष्मण (सं. 1072656एफ अब जेसी-240715एच), 02 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

दफादार असबे सदाशिव तुकाराम (सं. 1072658एम अब जेसी-240716एल), 02 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 फरवरी 2004 से दी जाती है)

दफादार दयानन्द प्रसाद (सं. 1070629वाई अब जेसी-240718डब्ल्यू),  
07 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

दफादार टिका सिंह (सं. 1066892एम अब जेसी-240719वाई), 07 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार महेन्द्र सिंह (सं. 1071773ए अब जेसी-240720एच), 02 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार हरी हर राम (सं. 1072555एन अब जेसी-240721डब्ल्यू),  
14 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार चन्द्रन (सं. 1086252के अब जेसी-240722वाई), 05 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार राम विनय प्रसाद यादव (सं. 1069091डब्ल्यू अब जेसी-240723एफ), 13 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार उदयबीर सिंह (सं. 1077332ए अब जेसी-240724के),  
08 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार सुखदेव सिंह (सं. 1065973ए अब जेसी-240725एम),  
13 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

दफादार जसपाल सिंह (सं. 1069118एच अब जेसी-240727एक्स),  
03 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

दफादार चन्द्र सिंह रावत (सं. 1071844डब्ल्यू अब जेसी-240728ए),  
25 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

दफादार अशोक कुमार जोशी (सं. 1072413डब्ल्यू अब जेसी-240729एच), 25 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

दफादार प्रकाश के सी (सं. 1066792एफ अब जेसी-240730एक्स),  
30 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार प्रदीप कुमार कम्बोज (सं. 1070058एल अब जेसी-240731ए), 02 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार आर मुरली धरन (सं. 1074167पी अब जेसी-240732एच),  
29 जून 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार हंस राज (सं. 1067794वाई अब जेसी-240733एल),  
03 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार उप्पारा रंगा स्वामी (सं. 1075896के अब जेसी-240735डब्ल्यू), 22 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार राम किशन मीना (सं. 1068376डब्ल्यू अब जेसी-240736वाई), 03 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2004 से दी जाती है)

दफादार जोगिन्दर सिंह (सं. 1068928वाई अब जेसी-240738के),  
15 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

दफादार मधु सुदाना जैना (सं. 1066665एम अब जेसी-240739एम),  
02 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

दफादार राम गोविन्द सां (सं. 1067941डब्ल्यू अब जेसी-240740एफ),  
02 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2004 से दी जाती है)

दफादार फरीर सेल्वम के (सं. 1066833ए अब जेसी-240742एम),  
01 जुलाई 2004

दफादार आर सक्का राथलवार (सं. 1067779के अब  
जेसी-240743पी), 03 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार तिनकारीबिसवास (सं. 1066288एफ अब  
जेसी-240750एल), 26 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार मनफूल सिंह (सं. 1070009एच अब जेसी-240752डब्ल्यू),  
24 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार राम चन्दर (सं. 1070588ए अब जेसी-240753वाई),  
24 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार मलकियत सिंह (सं. 1077718ए अब जेसी-240756एम),  
23 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार मानक सिंह (सं. 1077841वाई अब जेसी-240757पी),  
23 जुलाई 2004\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

दफादार नर सिंह (सं. 1072987एच अब जेसी-240761एक्स),  
01 अगस्त 2004

दफादार बलविन्दर सिंह (सं. 1079327एन अब जेसी-240774पी),  
01 अगस्त 2004

जोस थामस  
अवर सचिव

सं. 611, दिनांक 16 नवम्बर 2004--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित  
ए एम सी अधिकारियों की उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

आर शुक्ला (एमआर-06151पी), ए एम सी--12 जून 2004

आर एन बनर्जी (एमआर-06047एफ), ए एम सी--01 दिसम्बर  
2003

(श्रीमती) प्रतिमा सिंह (एमआर-06718ए), ए एम सी--31 मई 2004

एस सी चमोली (एमआर-06147एम), ए एम सी--12 जून 2004

ए के तपादर (एमआर-06171एम), ए एम सी--12 जून 2004

पी के शर्मा (एमआर-06032वाई), ए एम सी--01 दिसम्बर 2003

ए के बरारा (एमआर-07219एक्स), ए एम सी--14 जुलाई 2004

कैप्टन से मेजर के पद पर

जया कौशिक (एमआर-07338एन), ए एम सी--23 जून 2004

मनीष मनराई (एमआर-07244डब्ल्यू), ए एम सी--05 फरवरी 2004

अमित कुमार शाह (एमआर-07253एक्स), ए एम सी--05 फरवरी  
2004

जयन्त दयो (एमआर-07340एल), ए एम सी--23 जून 2004

विनोद कुमार एम एस (एमआर-07341एन), ए एम सी--23 जून  
2004

नितीश खण्डेलवाल (एमआर-07342डब्ल्यू), ए एम सी--23 जून  
2004

जे एम वर्गीस (एमआर-07343वाई), ए एम सी--23 जून 2004

सुकान्ता मंडल (एमआर-07349पी), ए एम सी--23 जून 2004

सर्जन लेफ्टि से सर्जन लेफ्टि कमांडर के पद पर

विवेक भट्ट (एमआर-07336एच), (75691)ए एम सी--23 जून  
2004

स्वाति मित्रा (एमआर-07339डब्ल्यू), (75833)ए एम सी--23 जून  
2004

सर्जन लेफ्टि कमांडर से सर्जन कमांडर के पद पर

राजीव ए (एमआर-06716पी)(75497), ए एम सी--17 मई 2004

ए गोपीनाथ (एमआर-06149एक्स)(75593), ए एम सी--12 जून 2004

सी एन जयदीप (एमआर-06159एफ)(75484), ए एम सी--12 जून 2004

सी एन चौधरी (एमआर-06593एन)(75558), ए एम सी--06 जुलाई 2004

पी नायर (एमआर-06714के)(75494), ए एम सी--22 अप्रैल 2004

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

अजय हांडा (एमआर-06022पी)(20576), ए एम सी--01 दिसम्बर 2003

अंजलि आलम (एमआर-07187ए)(23421), ए एम सी--30 जनवरी 2004

पदमाश्री जैन (एमआर-07661एच)(22480), ए एम सी--30 जून 2004

विवेक जायसवाल (एमआर-07054के)(21717), ए एम सी--08 जुलाई 2004

फ्लाइट लेफ्टि से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

आरूषी संजीव देशपांडे (एमआर-07166के)(24721), ए एम सी--29 जून 2003

एम. श्रीवास्तव

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

वायु सेना शाखा

सं. 612, दिनांक 11 नवम्बर, 2004--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से प्रसन्नतापूर्वक निम्न पदों पर प्रोन्नत करते हैं :--

सी. जी. ओ. (ए)

श्री जगन्नाथ माने, 21630--05 जून 04

श्रीमती पुनित लाकरा, 30831--26 मई 04

श्री बी. बी. बत्रे, 30989--07 जून 04

श्री पी. के. सुकिया, 31705--08 जुलाई 04

श्री बी. आर. हजारिका, 34157--26 मई 04

श्री ए. के. मीणा, 31299--02 जून 04

एस. एम. सेठी

निदेशक का. असैनिक

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th December 2004

## (ARMY BRANCH)

No. 609, dated 17th November 2004—The President is pleased to make the following appointments:—

## REGULAR ARMY

## SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

The undermentioned GCs of 95 TG & 11, UES course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94 for TG Course and AI 2/93 as amended vide AI 12/96 for UES Course :—

IMA No. Name SS No. ARM/Service Date of SSC on probation

## 95 Technical Graduates Course

T/5999 Sunil Kumar (SS 40155X) SIGS, 12 July 2002.

T/6001 Maneesh (SS 40156A) EME, 12 July 2002.

T/6020 Anup V Pillai (SS 40172X) SIGS, 12 July 2002.

T/6021 R Sameer (SS 40173A) SIGS, 12 July 2002.

## 11 University Entry Scheme Course

U/393 Angshuman Chakrabarti (SS 40180W) SIGS, 12 July 2002.

U/399 Mayank Soni (SS 40186X) SIGS, 12 July 2002.

U/402 C Senthil Kumaran (SS 40189L) SIGS, 12 July 2002.

U/405 Uma Shankar (SS 40192L) EME, 12 July 2002

U/427 Kanwarjeet Singh (SS 40214Y) SIGS, 12 July 2002.

The undermentioned GCs of 96 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the dates shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94 :—

IMA No. Name SS No. Arm/Services Date of SSC on probation

T/6027 Kudale Amit Shrikant (40477X) EME, 17 Jan 2003.

T/6029 Vijay Dhankhar (40479H) EME, 17 Jan 2003.

T/6030 Saurabh Modi (40480X) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6032 Raghvendra Agrawal (40482H) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6033 Harinder Singh Suhag (40483L) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6036 Sanjay Kumar Pandey (40485W) EME, 17 Jan 2003.

T/6037 Vikas Singh Rana (40486Y) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6038 Pradweap R V (40487F) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6040 Basav Raj (40489M) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6041 Deven Datta (40490F) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6042 K. V V P S Nirban (40491K) EME, 17 Jan 2003.

T/6043 Ajay Kumar (40492M) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6044 Suresh Narayan Tripathi (40493P) EME, 17 Jan 2003.

T/6045 Siddhartha Acharya (40494X) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6046 Ashish Shoran (40495A) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6048 Harish Kumar Spolia (40497L) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6049 Jasdeep Singh (40498N) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6050 Amurag Sharma (40499W) SIGS, 17 Jan 2003.

T/6053 Sunil Gahlaut (40501H) EME, 17 Jan 2003.

T/6054 Ravi Kiran Tomar (40502L) EME, 17 Jan 2003.

T/35540 Daliparti Sreekanth (40504W) ENGRS, 01 Apr 2003.

T/35589 Chintaluri Hanumantha Rao (40505Y) ENGRS, 16 Feb 2003.

T/35663 Abhishek Kumar Shrivastava (40506F) SIGS, 01 Apr 2003.

T/35670 Abhishek Kumar (40507K) SIGS, 01 Apr 2003.

ARVIND KUMAR

Major

DAMS 8B

## (ARMY BRANCH)

No. 610, dated 10th November 2004—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## Infantry

## The Mechanised Infantry Regiment

## To be Substantive Subedar Major

Sub Jawahar Lal Gujar (JC-217991Y), 01st Jun 2004.

Sub Chavan Bapu Mahadeo (JC-216374K), 01st Jul 2004.

Sub Meen Prakash (JC-418181M), 01st Jul 2004.

Sub Ramesh Singh (JC-216378A), 01st Aug 2004.

Sub Sucha Singh (JC-226946N), 06th Aug 2004.\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Sub Maj wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances)

## To be Substantive Subedar

Nb Sub Kishore Kumar Singh (JC-419037K), 01st Jan 2004.

Nb Sub Kehar Singh (JC-419103F), 25th Jul 2004.\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Man Mohan Singh (JC-419146W), 01st Feb 2004.

Nb Sub Madan Lal (JC-419164Y), 01st Feb 2004

Nb Sub Kalehar Singh (JC-419182F), 26th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagdish Singh (JC-419523F), 04th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Damodar Rana (JC-419647W), 01st Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anad Singh (JC-418962A), 01st Mar 2004

Nb Sub Prem Singh (JC-418993A), 01st Mar 2004

Nb Sub Govind Singh (JC-418984Y), 03rd May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shree Kishan (JC-419043X), 17th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 07th Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rohit Kumar Gurung (JC-418715M), 03rd May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st May 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ram Briksh Singh (JC-418943P), 01st May 2004

Nb Sub Balbir Singh (JC-419407Y), 01st May 2004

Nb Sub Narendran Malappil (JC-418804L), 23rd Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bijendra Singh (JC-418868W), 30th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Yankappa Lamani (JC-418913X), 23rd Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bakhtawar Singh (JC-418925M), 30th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dharampal Singh (JC-418939M), 07th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satya Pal (JC-419075A), 30th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dinesh Singh Rawat (JC-419134P), 20th Jul 2004\*  
\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sidhe Singh (JC-419167M), 20th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suresh Chand (JC-419471W), 10th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Girdhari Singh (JC-419066Y), 03rd Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Harial Singh Dangi (JC-419094L), 30th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Subh Ram (JC-419127L), 30th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suresh Kumar (JC-419162N), 30th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Barendra Nath Hansda (JC-419221P), 20th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Suraj Bhan (JC-419069M), 01st Aug 2004

Nb Sub Surendra Bahadar Singh (JC-419085K), 03rd Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Subs Subedar wef 01st Aug 2004 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub Clk Jaswant Singh Saklani (JC-418798H), 21st Sep 2002\*

\*(Granted seniority in the rank of Subedar (Clerk) with effect from 01st Sep 2002 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Clk Ramesh Chand Rana (JC-418812K), 01st Oct 2002

To be Substantive Subedar (RT)

Nb Sub RT Shree Uma Shankar Tiwari (JC-418008H), 19th Nov 2002\*

\*(Granted seniority in the rank of Subedar (RT) with effect from 01st Nov 2002 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar

Hav Dharambir Singh (14903723M Now JC-420001X), 01st Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jan 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhbinder Singh (14908617X now JC-420002A), 12th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Kashmir Singh (14901851L now JC-420003H), 06th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Amalendu Basak (14903221K now JC-420004L), 24th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Vish Ram (14906515H now JC-420005N), 26th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 22nd Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Vijay Kumar (14906385L now JC-420006W), 28th Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Nar Bahadur Gurung (14906951A now JC-420007Y), 15th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Ravindra Singh (14902891Y now JC-420008F), 24th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Kapoor Singh (14906420H now JC-420009K), 28th Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Godase Tulshiram Ananda (14903059X now JC-420010Y), 15th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Kailash Singh Gurung (14904467P now JC-420011F), 17th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 09th Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Amar Singh (14901746P now JC-420012K), 05th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st May 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Som Raj (14906460K now JC-420013M), 08th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st May 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Sat Guru (14905608L now JC-420014P), 15th May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st May 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Dinesh Kumar Sharma (14908349Y now JC-420015X), 16th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st May 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Giriwar Singh (14901507A now JC-420016A), 01st Jun 2004

Hav Dhan Singh (14901596K now JC-420017H), 01st Jun 2004

Hav Surendra Kumar (14901822W now JC-420018L), 01st Jun 2004

Hav Jagdish Prasad (14901893X now JC-420019N), 12th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Ghan Shyam Sharma (14905688N now JC-420020H), 04th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav Clk Shiv Karan Singh (2980932A now JC-420027M), 01st Jul 2004

Hav Clk Karnail Singh (14910485N now JC-420028P), 01st Aug 2004

To be Nb Sub (RT) (Pandit)

Chandra Prakash Lakhera (JC-419935H), 17th Jul 2004

## To be Naib Subedar (GD)

Hav Joginder Singh (14913222A now JC-420021L), 10th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Satbir (14913475P Now JC-420022N) 19th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Harbhej Singh (14913394P now JC-420023W) 10th Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Satender Singh (2982795L now JC-420024Y), 24th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Singh Tomar (2978781N now JC-420025F) 24th Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Prakash Singh (2983038H now JC-420026K) 01st Jul 2004

## BRIGADE OF THE GUARDS

## To be Sub Maj

Sub Yeshpal (JC-205436Y), 06 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2004)

Sub Siva Sankaran C (JC-208257K), 19 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004)

Sub Gyaninder Prasad (JC-402128X), 01 Jul 2004

Sub Krishna Kumar Jha (JC-402250N), 01 Aug 2004

Sub Mehtab Singh (JC-188603L), 10 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004)

Sub N Nallaiyan (JC-217924N), 12 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004)

Sub Jai Karan Singh (JC-192336M), 01 Aug 2004

## To be Sub

Nb Sub Lala Ram (JC-402496M), 02 Apr 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 06 Feb 2004)

Nb Sub Brijendra Singh (JC-402740F), 18 May 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Mar 2004)

Nb Sub Samson A (JC-402710K), 16 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 11 Apr 2004)

Nb Sub Ved Singh Poonia (JC-402580M), 06 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2004)

Nb Sub Vishnu Kant Upadhya (JC-402738K), 04 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 06 May 2004)

Nb Sub Shiv Kumar Yadav (JC-402759A), 03 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 13 May 2004)

Nb Sub Dhan Singh (JC-402776A), 13 May 2004

Nb Sub Om Dutt (JC-402828L), 07 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 13 May 2004)

Nb Sub Sishupal Singh (JC-402956H), 22 May 2004

Nb Sub Ram Baran Singh (JC-403065M), 22 May 2004

Nb Sub Jatender Pal Singh (JC-402920K), 23 May 2004

Nb Sub Prasad M (JC-402905M), 01 Jun 2004

Nb Sub Shivaji BU (JC-402971X), 01 Jun 2004

Nb Sub Badalay Ram Endolia (JC-402625F), 01 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004)

Nb Sub Dinesh Chander (JC-402940X), 01 Jun 2004

Nb Sub Rajendra Prasad Ray (JC-403087L), 13 Jun 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2004)

Nb Sub Udaivir Singh Pal (JC-403127F), 01 Jun 2004

Nb Sub Kaptan Singh (JC-402655Y), 01 Jul 2004

Nb Sub Madan Lal (JC-402753Y), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2004)

Ram Niwas Hooda (JC-402774P), 01 Jul 2004

Nb Sub Kartar Singh (JC-402775X), 15 Jul 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2004)

Nb Sub Mohinder Singh (JC-402842X), 12 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2004)



Nb Sub Satbir Singh (JC-402851Y), 12 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2004)

Nb Sub Hari Singh Dudi (JC-402861H), 12 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2004)

Nb Sub Vineshwar Sharma (JC-402778L), 11 Aug 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2004)

Nb Sub Ramanand Rai (JC-402884K), 01 Aug 2004

Nb Sub Ram Prakash Shakya (JC-403066P), 01 Aug 2004

Nb Sub Prahlad (JC-403129M), 01 Aug 2004

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk Rajender Mani Pandey (JC-402757P), 01 Feb 2004

Nb Sub/Clk Gaikwad Suresh Kondiba (JC-402758X), 01 Feb 2004

Nb Sub/Clk Krishan Kumar (JC-402769K), 01 Mar 2004

Nb Sub/Clk Mohammad Haseen (JC-402770Y), 01 Mar 2004

Nb Sub/Clk Balwant Singh Rana (JC-402772K), 01 Mar 2004

Nb Sub/Clk Satyabir Singh (JC-402834Y), 01 Mar 2004

Nb Sub/Clk Kushal Singh Bhist (JC-402872P), 01 Aug 2004

To be Sub

Nb Sub Gopal Singh (JC-402737F), 17 Feb 2004

Nb Sub Banbir Singh Rawat (JC-402808X), 12 Apr 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 21 Feb 2004)

Nb Sub Sarman Singh Yadav (JC-402814L), 15 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 13 May 2004)

Nb Sub Banwari Lal (JC-402989N), 01 Apr 2004

Nb Sub Vargheese C (JC-402995F), 01 Apr 2004

Nb Sub Ram Niwas (JC-403009N), 31 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Apr 2004)

Nb Sub Chandra Has (JC-402829N), 28 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 02 May 2004)

Nb Sub Suraj Bhan Singh (JC-402830H), 02 May 2004

Nb Sub Dinesh Chander (JC-402940X), 01 Jun 2004

Nb Sub Shamsheer Singh (JC-402629X), 01 Jun 2004

Nb Sub Mitar Singh (JC-402630M), 01 Jun 2004

Nb Sub Suresh HC (JC-403083P), 01 Jun 2004

Nb Sub Ram Prasad (JC-402660K), 01 Jul 2004

Nb Sub Gaje Singh (JC-402892H), 18 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

Nb Sub Dilbag Singh (JC-402893L), 18 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

Nb Sub Hem Raj Singh (JC-403020M), 18 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

Nb Sub Ram Niwas (JC-403054A), 18 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

Nb Sub Suraj Bhan Janghu (JC-403069H), 16 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

Nb Sub Navindera Singh (JC-402882Y), 07 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

Nb Sub Mangal Dass (JC-402883F), 09 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

Nb Sub Baldev Raj (JC-402691K), 10 Aug 2004

Nb Sub Ram Bhuwan Tiwari (JC-402885M), 19 Aug 2004

Nb Sub Jai Singh (JC-402888A), 01 Sep 2004

Nb Sub Updesh Kumar Mishra (JC-402945W), 01 Sep 2004

Nb Sub Jai Prakash (JC-402706F), 01 Sep 2004

Nb Sub Ran Singh (JC-403070X), 01 Sep 2004

Nb Sub Ram Kishan (JC-403141N), 01 Sep 2004

To be Sub (Clk)

Nb Sub/Clk MD Khoda Baksa Shaikh (JC-402917K), 01 Aug 2004

Nb Sub/Clk Satender Datt (JC-402924A), 01 Sep 2004

Nb Sub/Clk Raghubir Singh Rawat (JC-402923X), 01 Sep 2004

To be Nb Sub

Hav V Ramiah (No. 13685247N Now JC-403547F), 17 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 02 Apr 2004)

Hav Omkar Singh (No. 13685928W Now JC-403548K),  
30 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 11 Apr 2004)

Hav Ram Sampat (No. 13681455L Now JC-403549M),  
18 Apr 2004

Hav Chandra Shekhar Prasad Yadav (No. 13686399F Now  
JC-403550F), 30 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 02 May 2004)

Hav/Opr Subhash Chander Dayma (No. 13687152M Now  
JC-403551K), 04 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 06 May 2004)

Hav/Gnr Jagjivan Ram (No. 13684270P Now JC-403552M),  
12 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 13 May 2004)

Hav Vijay Bahadur (No. 13685449P Now JC-403553P),  
23 May 2004

Hav Hyder Baig (No. 13687795K Now JC-403554X), 11 Jul  
2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Jun 2004)

Hav Thavamani (No. 13688525F Now JC-403555A), 01 Jun  
2004

Hav/Dvr M Srinivas Rao (No. 13689061F Now JC-  
403556H), 01 Jun 2004

Hav Sankar Soren (No. 13685314N Now JC-403557L),  
01 Jun 2004

Hav Ram Khilari (No. 13685797W Now JC-403558N),  
01 Jun 2004

Hav/Dvr Umesh Kumar (No. 13685644M Now JC-  
403559W), 01 Jun 2004

Hav/Opr Mohan Thakur (No. 13685699W Now JC-  
403560L), 01 Jun 2004

Hav/Gnr Pat Ram Yadav (No. 13684868A Now JC-403561N),  
17 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav/Dvr Rajbir Singh (No. 13685541N Now JC-403562W),  
17 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav/Dvr Karan Singh (No. 13685636N Now JC-403563Y),  
17 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav/Dvr Rajesh Kumar (No. 13686503K Now JC-403564F),  
12 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav/Dvr Taj Mohammad (No. 13686402W Now JC-  
403565K), 12 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav/Dvr Narpat Singh (No. 13687332P Now JC-403566M),  
12 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav Nasib Singh (No. 13681310A Now JC-403567P), 07  
Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 05 Jul 2004)

Hav Sultan Singh (No. 13683659W Now JC-403568X), 01  
Aug 2004

To be Nb Sub (CLK)

Hav/Clk Raj Deo Rai (No. 13686523X Now JC-403569A),  
07 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect  
on Pay and Allowances wef 01 Jun 2004)

Hav/Clk Sushil Kumar Mandal (No. 13686526L Now JC-  
403570P), 30 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect  
on Pay and Allowances wef 01 Jun 2004)

Hav/Clk Balbir Singh (No. 13685131X Now JC-403571X),  
01 Aug 2004

Hav/Clk Krishan Kumar (No. 13686539H Now JC-403572A),  
01 Aug 2004

Hav/Clk Mahendra Singh Rana (No. 13686541A Now JC-  
403573H), 01 Aug 2004

Hav/Clk Pritam Singh (No. 13686548K Now JC-403574L),  
01 Sep 2004

To be Nb Sub (RT)

Rect (RT) Chetany Prakash Sharma (No. 403429 Now JC-  
403429N), 20 Mar 2004

To be Nb Sub

Hav Prem Pal Singh (No. 13682972P Now JC-403575N), 04  
Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on  
Pay and Allowances wef 01 Sep 2004)

Hav Girdhari Lal (No. 13683674L Now JC-403576W), 01 Sep 2004

Hav Lakshmi Kant (No. 13687311Y Now JC-403577Y), 01 Jun 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Apr 2004)

Hav Lakhwinder Singh (No. 13681611A Now JC-403578F), 01 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 May 2004)

Hav Ashok Kumar (No. 13685115A Now JC-403579K), 02 May 2004

Hav Rasa Bihari Mohanty (No. 13685229L Now JC-403580Y), 02 May 2004

Hav Ghisa Ram Saini (No. 13686862X Now JC-403581F), 18 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 06 May 2004)

Hav/Dvr Raj Singh (No. 13685093M Now JC-403582K), 28 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 13 May 2004)

Hav Jag Ram (No. 13681706K Now JC-403583M), 01 Jun 2004

Hav Kalyan Ram (No. 13685055W Now JC-403584P), 01 Jun 2004

Hav Pramod Kumar (No. 13687160Y Now JC-403585X), 27 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav Suresh Chandra (No. 13687473K Now JC-403586A), 27 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav Uma Shankar Singh (No. 13687263K Now JC-403587H), 27 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Jul 2004)

Hav Lalita Prasad (No. 13684474F Now JC-403588L), 20 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 25 Jul 2004)

Hav/Opr Rameshwar Dayal (No. 13684466H Now JC-403589N), 01 Aug 2004

Hav Brajesh Babu Chaturvedi (No. 13687452N now JC-403590H), 01 Aug 2004

Hav Suresh Kumar (No. 13683661N now JC-403591L), 16 Sep 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

To be Nb Sub (CLK)

Hav/Clk Roshan Lal (No. 13686521M Now JC-403592N), 29 Aug 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) without effect on Pay and Allowances wef 01 Aug 2004)

#### ARMOURED CORPS

(To be Substantive Risaldar Major)

Risaldar Sucha Singh (JC-235791L), 05 Jun 2002\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 May 2002 without effect on Pay and Allowances)

Risaldar Gula Ram (JC-237014F), 01 Jul 2002

Risaldar Rattan Lal Yadav (JC-235808K), 01 Dec 2003

Risaldar Mahabir Singh (JC-237747A), 01 Jan 2004

Risaldar Nag Lal (JC-236809H), 26 Jan 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Jan 2004 without effect on Pay and Allowances)

Risaldar Mahipal Singh (JC-237411A), 01 Jan 2004

Risaldar Prabhu Neelam (JC-237672N), 09 March 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 March 2004 without effect on Pay and Allowances)

Risaldar Sri Ramesh (JC-237313A), 03 March 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 March 2004 without effect on Pay and Allowances)

Risaldar Audaya Kumar (JC-237993L), 01 Apr 2004

Risaldar Prabhu Nath Ojha (JC-238255N), 01 Apr 2004

Risaldar Surjit Kumar (JC-237120A), 21 Apr 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr 2004 without effect on Pay and Allowances)

Risaldar Rama Nand (JC-204536X), 01 Apr 2004

Risaldar Uma Shankar Singh (JC-206536W), 01 Apr 2004

Risaldar Gurdeep Singh (JC-238174N), 22 Apr 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Apr 2004 without effect on Pay and Allowances)

Risaldar Gurdip Singh (JC-236285M), 01 May 2004

Risaldar Darshan Singh (JC-237813X), 01 May 2004

Risaldar Jai Kishan (JC-236613P), 02 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris Maj wef 01 Jun 2004 without effect on Pay and Allowances)

To be Nb Ris

Dfr Kan Singh Udawat (No. 01069572H Now JC-240646X), 01 Jun 2004\*

- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 05 Mar 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Ram Binod Mishra (No. 01068728H Now JC-240671W), 03 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Vijay Pal (No. 01074360F Now JC-240691K), 22 Apr 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Ajai (No. 01071257L Now JC-240701H), 20 May 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Neela Kanth Miragi (No. 01070872W Now JC-240702L), 07 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Surender Singh (No. 01071592P Now JC-240703N), 05 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 13 Mar 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Raj Pal Singh (No. 01071398A Now JC-240708M), 12 May 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Virender Singh (No. 01072514K Now JC-240714A), 28 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Dec 2003 without effect on pay and allowances)  
Dfr Pisal Hanmant Laxman (No. 01072556F Now JC-240715H), 02 Jul 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jan 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Asabe Sadashiv Tukaram (No. 01072658M Now JC-240716L), 02 Jul 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 27 Feb 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Dayanand Prasad (No. 01070629Y Now JC-240718W), 07 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Tika Singh (No. 01066892M Now JC-240719Y), 07 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Mahandar Singh (No. 01071773A Now JC-240720N), 02 Jul 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Hari Her Ram (No. 01072555N Now JC-240721W), 14 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Chandran (No. 01086252K Now JC-240722Y), 05 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Ram Binay Prasad Yadav (No. 01069091W Now JC-240723F), 13 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 08 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Udaybir Singh (No. 01077332 Now JC-240724K), 08 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 15 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Sukhdev Singh (No. 01065973A Now JC-240725M), 13 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Jaspal Singh (No. 01069118H Now JC-240727X), 03 Jul 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances)  
Dfr Chander Singh Rawat (No. 01071844W Now JC-240728A), 25 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Ashok Kumar Joshi (No. 01072413W Now JC-240729H), 25 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Prakash K C (No. 01066792F Now JC-240730X), 30 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr Pradeep Kumar Kamboj (No. 01070058L Now JC-240731A), 02 Jul 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)  
Dfr R Muralee Dharan (No. 01074167P Now JC-240732H), 29 Jun 2004\*
- \*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Hans Raj (No. 01067794Y Now JC-240733L), 03 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 May 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Uppara Ranga Swamy (No. 01075896K Now JC-240735W), 22 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 09 May 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Kishan Meena (No. 01068376W Now JC-240736Y), 03 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 14 May 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Joginder Singh (No. 01068928Y Now JC-240738K), 15 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Madhu Sudana Jena (No. 01066665M Now JC-240739M), 02 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Govind Saw (No. 01067941W Now JC-240740F), 02 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jun 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Panncar Selvam K (No. 01066833A Now JC-240742M), 01 Jul 2004

Dfr R Sakkarathalwar (No. 01067779K Now JC-240743P), 03 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Tinkaribiswas (No. 01066288F Now JC-240750L), 26 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Manphool Singh (No. 01070009H Now JC-240752W), 24 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Ram Chander (No. 01070588A Now JC-240753Y), 24 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Malkiat Singh (No. 01077718A Now JC-240756M), 23 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Manak Singh (No. 01077841Y Now JC-240757P), 23 Jul 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Dfr Nar Singh (No. 01072987H Now JC-240761X), 01 Aug 2004

Dfr Balwinder Singh (No. 01079327N Now JC-240774P), 01 Aug 2004

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 611, dated 16th November 2004—The President is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officers with effect from the date mentioned against each :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

#### Major to be Lt Col

R Shukla (MR-06151P) AMC, 12 Jun 2004

R N Banerji (MR-06047F) AMC, 01 Dec 2003

(Mrs) Pratima Singh (MR-06718A) AMC, 31 May 2004

S C Chamoli (MR-06147M) AMC, 12 Jun 2004

A K Tapadar (MR-06171M) AMC, 12 Jun 2004

P K Sharma (MR-06032Y) AMC, 01 Dec 2003

A K Barara (MR-07219X) AMC, 14 Jul 2004

#### Capt to be Major

Jaya Kaushik (MR-07338N) AMC, 23 Jun 2004

Manish Manrai (MR-07244W) AMC, 05 Feb 2004

Amit Kumar Shah (MR-07253X) AMC, 05 Feb 2004

Jayant Deo (MR-07340L) AMC, 23 Jun 2004

Vinod Kumar M S (MR-07341N) AMC, 23 Jun 2004

Nitish Khandelwal (MR-07342W) AMC, 23 Jun 2004

J M Varghese (MR-07343Y) AMC, 23 Jun 2004

Sukanta Mondal (MR-07349A) AMC, 23 Jun 2004

#### Surg Lt to be Surg Lt Cdr

Vivek Bhat (MR-07336H) (75691) AMC, 23 Jun 2004

Swati Mishra (MR-07339W) (75833) AMC, 23 Jun 2004

#### Surg Lt Cdr to Surg Cdr

Rajeev A (MR-06716P) (75497) AMC, 17 May 2004

A Gopinath (MR-06149X) (75593) AMC, 12 Jun 2004

C N Jaideep (MR-06159F) (75484) AMC, 12 Jun 2004

C N Chaudhari (MR-06593N) (75558) AMC, 06 Jul 2004

P Nair (MR-06714K) (75494) AMC, 22 Apr 2004

#### Sqn Ldr to be Wg Cdr

Ajay Handa (MR-06022P) (20576) AMC, 01 Dec 2003

Anjali Alam (MR-07187A) (23421) AMC, 30 Jan 2004

Padmashri Jain (MR-07661H) (22480) AMC, 30 Jun 2004

Vivek Jayaswal (MR-07054K) (21717) AMC, 02 Jul 2004

Flt Lt to be Sqn Ldr

Arushi Sanjeev Deshpande (MR-07166K) (24721) AMC,  
29 Jun 2003

M. SRIVASTAVA  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)

#### AIR FORCE BRANCH

No. 612, dated 11th November 2004.—The President is pleased to make the following promotion to the grade of CGO(A):—

To be CGO(A)

Sh Jagannath Mane (21630), 05 Jun 04  
Smt Punit Lakra (30831), 26 May 04  
Sh BB Banne (30989), 07 Jun 04  
Sh PK Sukia (31705), 08 Jul 04  
Sh BR Hazarika (34157), 26 May 04  
Sh AK Meena (31299), 02 Jun 04

S M SETHI  
Dir (PC) (AFC)

#### ARMY BRANCH CORRIGENDUM

No. 613, dated 10th November 2004.—In Ministry of Defence Notification No. 20 dated 15 May 2004 published in Gazette of India No. 228 dated 07th Apr 2004 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below 'to be Substantive Risaldar' Page No. 622.

To be Substantive Risaldar

FOR

Naib Risaldar Vijay Kumar Bhardwaj (JC-238664M), 01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances)

READ

Naib Risaldar Vijay Kumar Bhardwaj (JC-238664M), 01 Sep 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances)

In Ministry of Defence Notification No. 24 dated 12 Jun 2004 published in Gazette of India No. 288 dated 20 May 2004 under the heading 'Regular Army' sub heading 'Armoured Corps' below 'to be Substantive Risaldar' Page No. 786.

To be Substantive Risaldar

FOR

Naib Risaldar Prakash Singh (JC-237928L), 18 Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2003 without effect on pay and allowances)

READ

Naib Risaldar Prakash Singh (JC-237928L), 18 Aug 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2003 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 228 dated 07 Apr 2004 published in the Gazette of India serial No. 20 dated 15 May 2004 under heading 'Regular Army' Sub heading 'Infantry' The Mechanised Infantry Regiment below :—

To be Naib Subedar

FOR

Hav Hans Raj (No. 14906422N now JC-419882P), 09th Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 2003 without effect on pay and allowances)

READ

Hav Hans Raj (No. 14906422N now JC-419882P), 09th Jan 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances)

In the Ministry of Defence Notification No. 336 dated 09 Jun 2004 published in the Gazette of India serial No. 28 dated 10 Jul 2004 under heading 'Regular Army' Sub heading 'Infantry' The Mechanised Infantry Regiment below :—

To be Substantive Subedar

FOR

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-418895A), 01st Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar with effect from 01st Mar 2004 without effect on pay and allowances)

READ

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-418895A), 10th Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar with effect from 01st Mar 2004 without effect on pay and allowances)

JOSE THOMAS  
Under Secy.